

GESL/2022-23

November 16, 2022

To,
The BSE Limited,
Corporate Relationship Department,
1st Floor, New Trading Wing,
Rotunda Building,
PJ Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai-400 001.
Fax No.: 022-22723121, 22722037
Scrip Code: 514167

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Bandra- Kurla Complex,
Bandra (East),
Mumbai-400051.
Tel No.: 022-26598100-8114/ 66418100
Fax No. : 022-26598237/38
Scrip Symbol: GANECOS

Sub.: Newspaper Clippings of Unaudited Financial Results

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 (3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are hereby submitting the copy of newspaper clippings of **Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended September 30, 2022**, published in an English daily newspaper (Business Standard) and in a Hindi daily newspaper (Business Standard) on **November 16, 2022**.

Kindly take the above on record and oblige.

Thanking you

Yours faithfully,
For Ganesha Ecosphere Limited



(Bharat Kumar Sajnani)
Company Secretary-cum-Compliance Officer

Encl.: As above

Pennar Industries Limited
Registered Office: Floor No. 3, DHFLVC Silicon Towers, Kondapur, Hyderabad - 500 084
CIN: L27109AP1919SR0001919 T+91 40 41923108
e-Mail ID: corporatecommunications@pennarindia.com, Website: http://www.pennarindia.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS
NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has completed the sending of e-mails the notice of Postal Ballot on 15th November, 2022 to those members, who have registered their email IDs for receipt of Postal Ballot Notice along with e-voting instructions in electronic form for seeking consent of members for the following:

Table with 2 columns: Sl. No., Agenda Item. Items include appointment of Ms. Virginia Sharma, change in designation of Mr. Varun Chawla, and remuneration of Ms. Virginia Sharma, Mr. RVS Ramakrishna, and Mr. Chandrasekar Sripada.

For Shareholders who have not received the notice due to change non-registration of their e-mail address with the Company / RTA / Depository Participants, they may request for the notice by send an email at corporatecommunications@pennarindia.com along with a Client Master. On receipt of such request, the shareholder would be provided soft copy of the notice and the procedure to enable e-voting for this Postal Ballot.

Mr. Subhash Kishan Kandrapu, Practicing Company Secretary (CP No. 17545) has been appointed as Scrutinizer for conducting e-voting process in a fair and transparent manner.

The e-voting process commenced on 17th November, 2022 and e-voting module will be disabled after the business hours i.e., 5.00 P.M. on 18th December, 2022 for voting by shareholders. In case of any queries, Members may contact the undersigned at 040-41923108 or mail to corporatecommunications@pennarindia.com.

The voting rights of Members shall be reckoned as on 11th November, 2022, which is the cut-off date. In compliance with the MCA Circulars, the Postal Ballot Notice is being sent only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories as on the cut-off date which is 11th November, 2022. The Scrutinizer shall submit his report to the Chairman of the Company after completion of the scrutiny and the results of the postal ballot will be announced on or before 20th December, 2022 at the Registered Office of the Company and will also be displayed on the website www.pennarindia.com of the Company beside being communicated to the Stock Exchanges, Depositories and Registrar & Share Transfer Agent.

In case of any query on e-voting, members may refer to the "Help" and "FAQs" sections / E-voting user manual available through a dropdown menu in the "Downloads" section of KFinTech's website for e - voting : https://evoting.kfintech.com or contact KFinTech as per the details given below.

Shri. Ganesh Chandra Patro, Asst. Vice President, KFin Technologies Limited, Selenium Tower B, Plot 31- 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramuda, Hyderabad 500 032 Phone No. : +91 40 6716 2222 Toll free No. : 1800-309-4001 (from 9:00 a.m. IST to 6:00 p.m. IST on all working days) e-Mail: ganesh.patro@kfintech.com

By order of the Board for Pennar Industries Limited
Sd/- Mirza Mohammed Ali Baig
Company Secretary & Compliance Officer
A29058
Place : Hyderabad
Date : 15.11.2022

SBFC Finance Limited
(Erstwhile SBFC Finance Private Limited)
CIN: U67190MH2008PLC178270
Regd. Office: 103, 1st Floor, C&B Square, Sangam Complex, Andheri Kurla Road, Village Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400059.
Telephone No.: 022-67875300 Website: www.sbfc.com
[Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 SEPTEMBER 2022

Table with 7 columns: Sr. No., Particulars, 30 September 2022, 30 June 2022, 30 September 2021, 30 September 2022, 30 September 2021, Year ended 31 March 2022. Rows include Total Income from Operations, Net Profit, Total Comprehensive Income, etc.

Notes:
1) The Company has changed its name from 'SBFC Finance Private Limited' to 'SBFC Finance Limited' w.e.f 30 September 2022.
2) The Board of Directors of the Company and its Shareholders have approved a resolution towards listing of equity shares through an Initial Public Offer ("IPO") and accordingly have filed the Draft Red Herring Prospectus with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") on 5 November 2022.
3) The financial results for the quarter ended 30 September 2022 have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 14 November 2022. The Statutory Auditors have carried out the review of the aforesaid results and have issued an unmodified report.
4) The above is an extract of the detailed format of un-audited financial results for the quarter ended 30 September 2022, filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 as amended. The full format of the said 'Financial Results' are available on the website of Stock Exchange "www.bseindia.com" and on the Company's website viz. "www.sbfc.com"
5) For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to BSE India and can be accessed on "www.bseindia.com".
For and on behalf of the Board of Directors of SBFC Finance Limited (Erstwhile SBFC Finance Private Limited)
Aseem Dhru MD & CEO DIN: 01761455

LACTOSE (INDIA) LIMITED
CIN: L15201GJ1991PLC015186
Regd. Off. : Survey No.5,6 & 7A, Village Poicha (Rania), Savli, Dist Vadodara, Gujarat - 391 780.
Website : www.lactoseindia.com Email ID: lactoseindialimited.com Telephone/ Fax No. : 02667-244308

EXTRACTS OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2022

Table with 5 columns: Sr. No., Particulars, 30-09-2022, 30-06-2022, 30-09-2021, 31-03-2022. Rows include Total income from operations, Net Profit, Total Comprehensive Income, etc.

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2022 filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Financial Result for the quarter and half year ended on 30th September, 2022 is available on www.bseindia.com and www.lactoseindia.com.
2 The above unaudited financial results of the Company for the quarter and half year ended 30th September 2022 has been reviewed by the Audit Committee and taken on record approved by the Board of Directors at its meeting held on 14th November 2022
3 The above results are in compliance with Indian Accounting Standard (Ind AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs
4 Comparative financial information of the previous quarter have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to correspond to the figures of current quarter.
For and Behalf of the Board Sd/- Atul Maheshwari Managing Director DIN : 00255202
Place : Mumbai
Date : 14.11.2022

SHREYAS INTERMEDIATES LIMITED
CIN : L24120PN1989PLC145047
Regd. Office: D-21-24, MIDC Lote Parshuram, Taluka Khed, Ratnagiri-415722
Phone No. 02356-272471; Email Id: info.shreyasintermediates@gmail.com; Website: www.shreyasintermediates.co.in

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter ended on 30 September, 2022

Table with 6 columns: Sr. No., Particulars, 30.09.2022, 30.06.2022, 30.09.2021, Half year ended on 30.09.2022, 31.03.2022. Rows include Total Income from Operations, Net Profit, Total Comprehensive Income, etc.

Notes:
1) The above financial results which are published in accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") have been reviewed by the Audit Committee at a meeting held on 14th November, 2022 and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14th November, 2022. The financial results are prepared in accordance with the Ind AS prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies.
2) The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 and is also available on the website of the company http://www.shreyasintermediates.co.in/services.html
For and on behalf of the Board of Directors For Shreyas Intermediates Limited Sd/- Surya Prakash Pandey Director DIN : 1898839
Place : Mumbai
Date : 14th November, 2022

Reliance MediaWorks Financial Services Private Limited
CIN : U74999MH2017PTC292285
Registered Office: Manek Mahal, 6th Floor, 90 Veer Nariman Road, Mumbai MH 400020
Email: rmwinvestor@gmail.com Website: www.reliancemediaworks.com

Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended September 30, 2022 (Regulation 52(8), read with regulation 52(4) of the Listing Regulations

Table with 4 columns: Sr. No., Particulars, 30/9/2022, 30/9/2021, 31/3/2022. Rows include Total income from Operations, Net Profit, Total Comprehensive Income, etc.

Notes:
1 The above unaudited statement of Financial results for the Quarter / Half year ended 30th September, 2022 have been reviewed and approved the Board of Directors in the meeting held on 14th November, 2022. The Statutory Auditors of the Company have carried out the above Financial Results and have issued Limited Review Report.
2 These results have been prepared in accordance with the provisions of Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) as amended from time to time.
3 The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange under regulation 52 of the Listing Regulations. The full format of the quarterly financial results is available on the websites of the Stock Exchange and the listed entity at https://www.reliancemediaworks.com/investor-desk
4 For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange Bombay Stock Exchange (BSE) and can be accessed on the https://www.reliancemediaworks.com/investor-desk
For Reliance Mediaworks Financial Services Private Limited Sd/- Govindan Kaundar Wholtime Director Din: 09481171
Date: November 14, 2022
Place: Mumbai

GANESHA ECOSPHERE LIMITED
CIN : L51109UP1967PLC009090
Regd. Office : Raipur (Rania), Kalpi Road, Distt. Kanpur Dehat - 209304 (U.P)
E-mail : secretarial@ganeshaecosphere.com, Website : www.ganeshaecosphere.com
Tel. No. : 0512-255505-06, +91 9198708383, Fax No. : 0512-2555293

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2022

Table with 4 columns: Sr. No., Particulars, Quarter ended 30.09.2022, Half Year ended 30.09.2022, Quarter ended 30.09.2021. Rows include Total Income from Operations, Net Profit, Total Comprehensive Income, etc.

Notes:
^ The Group does not have any Exceptional and Extraordinary item to report for the above periods.
The Parent Company has constituted Ganesh Employees' Welfare Trust to acquire, hold and allocate/transfer equity shares of the parent company to eligible employees pursuant to the Ganesh Ecosphere Employees' Stock Option Scheme, 2021. As on September 30, 2022, the Trust has 39,194 equity shares of the Company, which have been reduced while computing basic and diluted earnings per share.
Notes:
1. Additional information on standalone financial results is as follows:
Particulars Quarter ended 30.09.2022 Half Year ended 30.09.2022 Quarter ended 30.09.2021
Revenue from Operations 31,413.90 60,708.86 24,811.58
Profit before Tax 2,686.74 4,734.86 2,404.35
Profit after Tax 1,995.87 3,524.98 1,792.23
2. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.ganeshaecosphere.com.
For GANESHA ECOSPHERE LIMITED Sd/- (Shyam Sunder Sharma) Chairman
Place: Kanpur
Date: 14.11.2022

IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED
CIN: U45208OR2009PLC011389
Regd Office - Plot No. 188/183, Zero Point, Udayabata, Paradeep, Jagatsinghpur Odisha, India, 754141
Phone: 022-69309500, email: gijresh.shrivastava@iutsl.com

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30.09.2022

Table with 7 columns: Sr. No., Particulars, 3 Months Ended 30.09.2022, 3 Months Ended 30.06.2022, 3 Months Ended 30.09.2021, Year to Date Figures for Current period ended 30.09.2022, Year to Date Figures for Previous Year Ended 30.09.2021, Previous Year Ended 31.03.2022. Rows include Revenue from Operation, Total Income from Operation, Total Expenses, etc.

Notes:
1 The Company was incorporated on December 8, 2009 with the main object of Installation, Operation and Maintenance of Crude and Finished Products Tankages facility at Paradip Refinery of IOCL in Paradip.
2 Paid up debt capital represents Non Convertible Debentures (NCD's)
3 Debt Equity Ratio : Debt/Equity
Debt includes all the secured loans including Non Convertible Debentures.
Equity includes Equity Share Capital and Reserve and Surplus (excluding Revaluation Reserves).
4 Definition for Coverage Ratio
DSCR=Earning before Depreciation, Interest & Tax, excluding exceptional items/(Interest+Principal Repayment)
ISCR=Earning before Depreciation, Interest & Tax, excluding exceptional items/Interest
5 The above standalone financial results were reviewed by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors at its meeting held on Nov 14, 2022. The statutory auditors of the Company have carried out the Limited Review of the Financial Results and have issued an unmodified report thereon.
6 These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards 34 - Interim Financial Reporting ("Ind AS 34") prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued and other accounting principles generally accepted in India.
7 Details of previous and next due date non convertible debentures are as follows -
Table with 4 columns: Sr No, Particulars, Previous Due Date, Next Due Date. Rows include Non Convertible Debentures.
Note: Interest and principal was paid on due date.
8 Credit rating and change in credit rating (if any) : "CRISIL AAA" and "IND AAA"
9 Security :
The company has created Security Interest on the following in favour of the Debenture Trustee for the beneficial interest of the Debenture Holders:
(i) a first ranking inter se pari passu Security Interest, including first ranking pari passu charge/assignment on Project's cash flows and receivables under BOOT Agreement, including any monies receivable or claims or credit or benefit for CENAVT credit in favour of the Debenture Trustee;
(ii) a first ranking inter se pari passu Security Interest, including charge/mortgage on the fixed assets (movable and immovable property) of the Company, both present and future, in favour of the Debenture Trustee for the beneficial interest of the Series I Debenture Holders, Series II Debenture Holders and Series III Debenture Holders and a second ranking charge on the fixed assets (movable and immovable property) of the Company, in favour of the Debenture Trustee for the beneficial interest of the Series IV Debenture Holders, in favour of the Debenture Trustee for the beneficial interest of the Series V Debenture Holders;
(iii) a first ranking inter se pari passu Security Interest, including charge/assignment on all the intangible assets of the Company and unallocated capital in favour of the Debenture Trustee;
(iv) assignment by way of pari passu Security Interest of all rights, titles and interests of the Company in, to and under all Project Documents, Insurances, IOTL Bank Guarantee to which the Company is a party and all other material contracts relating to the Project;
(v) a first ranking inter se pari passu Security Interest, including charge/assignment on the Accounts (as well as amounts lying to the credit thereof, including Cash DRA as well as any Permitted Investments made there from in favour of the Debenture Trustee;
(vi) IOTL Guarantee with respect to Debt Service Reserve Account of Rs. 74.00 crores (March 2022 : Rs 74 Crores)
(vii) Asset cover available as on September 30, 2022 in case of the non-convertible debt securities issued by the company is 1.220.
10 The Company is principally engaged in a single business segment viz terminaling.
11 Tax expense comprises only of Deferred Tax.
For IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD Sd/- SREEKANTH THAMBISETTY DIRECTOR & CEO
Place : Mumbai
Date : November 14, 2022

स्कार्डिस्ट का रॉकेट विक्रम-एस लॉन्च के लिए तैयार

शाइन जैकब

अगर इंद्र देव की कृपा रही तो निजी अंतरिक्ष कार्यक्रम चलाने वाली हैदराबाद की कंपनी स्कार्डिस्ट एरोस्पेस शुक्रवार यानी 18 नवंबर को 11:30 बजे अपने रॉकेट यान विक्रम-एस को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस मिशन का नाम 'प्रारंभ' है, जो भारत में निजी क्षेत्र द्वारा विकसित और संचालित रॉकेट का पहला प्रक्षेपण होगा।



जून 2020 में भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष सेक्टर में निजी क्षेत्र की भागीदारी की मंजूरी देने के बाद से किसी भारतीय कंपनी द्वारा उठाया जाने वाला यह पहला बड़ा कदम है। उद्योग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक विक्रम-एस स्पेसएक्स, वनवेब, फ्लैनेट लैब्स और स्प्यार ग्लोबल जैसी निजी कंपनियों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को प्रमुख बनाने की दिशा में भारत का पहला कदम हो सकता है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर देश में कुल 100 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप हैं, जिनमें से 2021 में 47, 2020 में 21 और 2019 में 11 स्थापित किए गए थे।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में अंतरिक्ष अवसरों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम कार्यालय (सीबीपीओ) के निदेशक एन सुधीर कुमार ने कहा, 'यह अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई स्टार्टअप स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त करेगा। दुनिया में इस क्षेत्र का हर महत्वपूर्ण देश नीतिगत रूप से कम से कम दो या तीन निजी एजेंसियों को उपग्रह निर्माण क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है। हालांकि क्षेत्रीय सुधार केवल दो साल पहले हुए थे जबकि स्कार्डिस्ट टीम उससे बहुत पहले हमारे संपर्क में थी।'

स्कार्डिस्ट भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश हासिल करने वाली स्टार्टअप में से एक है, जिसने अब तक लगभग 6.8 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई है। स्कार्डिस्ट ने सीड राउंड, सीरीज ए और ब्रिज राउंड के माध्यम से 1.7 करोड़ डॉलर जुटाए और इस साल सितंबर में सिंगापुर के संग्रभु निवेशक जीआईसी से सीरीज बी राउंड में 5.1 करोड़ डॉलर की रकम हासिल की। स्कार्डिस्ट के अलावा चेन्नई की अमिंकुल कॉस्मॉस भी अप्रैल 2023 तक अपने प्रक्षेपण यान अग्निबाण के पूर्ण पैमाने पर व्यावसायिक लॉन्च की योजना बना रही है।

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन के वैज्ञानिक सलाहकार और इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के पूर्व निदेशक एम सी दानन ने कहा, 'इसरो के बहुत से सेवानिवृत्त अधिकारी अब स्कार्डिस्ट को सहयोग कर रहे हैं और उसके साथ काम कर रहे हैं। जब स्पेसएक्स की शुरुआत हुई तो उन्हें नासा के पूर्व इंजीनियरों से भी तकनीकी मदद मिली थी। निजी क्षेत्र अंतरिक्ष सेक्टर में बहुत सारा पैसा ला सकता है और तेजी से निर्णय ले सकता है।'

दानन ने कहा कि कंपनी इस रफ्तार को बरकरार रख पाती है या नहीं यह उसके निवेशकों के विश्वास पर निर्भर करेगा। वर्तमान प्रक्षेपण एक ध्वनि रॉकेट है, जिसे वे भेज रहे हैं। इसे मील का पत्थर नहीं कहा जा सकता। खास बात यह है कि यह पहली बार है जब कोई निजी खिलाड़ी ऐसा कर रहा है। वे गति को बनाए रख सकते हैं या नहीं, यह उनकी भविष्य की निवेश हासिल करने की संभावनाओं पर निर्भर करेगा। डीवसॉफ्ट के डेटा के मुताबिक पृथ्वी के कक्ष में लगभग 4,550 मानव निर्मित उपग्रह हैं, जिनमें से निचली कक्षा में 3,790 उपग्रह, मध्य कक्षा में 139 अत्यधिक अंडाकार, ऊपरी कक्षा में 56 और जियोस्टेशनरी कक्षा में 565 उपग्रह स्थापित हैं। वर्तमान चलन के आधार पर अगले 10 वर्षों में लगभग 50,000 उपग्रहों को स्थापित करने की संभावना है, इनमें से अधिकतर पृथ्वी की निचली

देश के 80 फीसदी क्षेत्रों तक 5जी अगले अक्टूबर तक

सुरजीत दास गुप्ता

दूरसंचार कंपनियों सितंबर-अक्टूबर तक या अगले साल त्यौहारी सीजन के दौरान 5जी नेटवर्क का प्रसार करने के लिए सभी सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर योजना तैयार कर रही हैं। इसके तहत कंपनियों की योजना प्रति ऑपरेटर औसतन 160,000 टावरों पर नए रेडियो स्थापित करना है।

विक्रेताओं ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य सभी मेट्रो शहरों, अन्य शहरों और कस्बों तक 5जी सेवा उपलब्ध कराना है। इससे देश के 80 फीसदी इलाकों को कवर किया जा सकेगा। विक्रेता विभिन्न स्पेक्ट्रम बैंड पर 14 लाख से अधिक रेडियो का भारत में आयात करेंगे या असेंबल करेंगे। हालांकि, भारत में चिप की कमी एक बड़ी समस्या है। यह समस्या काफ़ी देर से कम भी हुई है और दोबारा आनी भी नहीं चाहिए। एक अग्रणी दूरसंचार कंपनी के अधिकारी ने कहा कि 8 से 10 शहरों में लगभग 10,000 टावरों से 5जी सेवा शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वह 5जी रेडियो की आसानी से उपलब्धता की उम्मीद करते हैं, जिन्हें जनवरी तक इन्स्टॉल करना है। उसके बाद अक्टूबर से नेटवर्क कवरेज को आसानी से बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के बाद देश के सभी मेट्रो शहरों, ज्यादातर शहरों और कस्बों में 5जी का कवरेज होगा। एयरटेल के एक सूत्र ने बताया कि कंपनी 1,500 से 1,600 टावर प्रति सप्ताह लगा रही है। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन इंडिया के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में करीब 7.27 लाख टावर हैं जिनमें छत और जमीन पर और

दीवारों पर लगे टावर शामिल हैं। लेकिन उनमें से केवल 36 फीसदी यानी 2.6 लाख टावर फाइबरयुक्त हैं और यह 5जी डेटा को सही ढंग से संचालित करने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि 5जी के लिए उच्च बैंडविड्यु की आवश्यकता होती है। स्पष्ट तौर पर, इनमें से अधिकतर टावर 5जी होंगे। कुछ दूरसंचार कंपनियां इनको साझा भी करेंगी। इसके अलावा, अतिरिक्त संख्या में भी टावर होंगे जो 5जी-बैंड स्पेक्ट्रम का उपयोग करेंगे जो भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो को फाइबर के बजाय 5जी बैकहॉल के लिए दिया जा रहा है। बैकहॉल का मतलब 5जी कोर और अन्य नेटवर्क के बीच सिग्नल से है। रेडियो की आवश्यकता बढ़े पमाने पर होगी। दूरसंचार विक्रेताओं का कहना है कि रिलायंस जियो प्रति टावर छह रेडियो स्थापित कर रही है। 3.5 मीगाहर्ट्ज बैंड क्षमता वाले प्रत्येक टावर में तीन, 5जी के लिए की-बैंड, साथ ही 700 मेगाहर्ट्ज में भी रेडियो स्थापित किए जाएंगे। इसे केवल रिलायंस जियो ने पूरे देश में अपना कवरेज बढ़ाने के लिए खरीदा है।

स्थापित करने के इस बाजार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कुछ आयातित सेंसर के अलावा विक्रम एस पूरी तरह से स्वदेशी रॉकेट है। कंपनी का उद्देश्य विक्रम एक, विक्रम द्वितीय और विक्रम तृतीय रॉकेट लाने की है। विक्रम एक की क्षमता 500 किलोग्राम, विक्रम द्वितीय की क्षमता 500 किलोग्राम और विक्रम तृतीय की क्षमता 500 किलोग्राम की रफ्तार के साथ 595 किलोग्राम भार और विक्रम तृतीय की क्षमता 815 भार ले जाने की क्षमता है।

ऑयल कंटी ट्यूबलर लिमिटेड
(CIN : L26932TG1985PLC005329)

कार्यालय : 'कामिनेनी', तीसरी मंजिल, किंग कोर्ट, हैदराबाद-500001

शेयरधारकों के लिए सार्वजनिक सूचना

बीएसई लिमिटेड से कीर्तित शेयरों की स्पेशल डिलीवरी (इसके बाद 'प्रतिवृत्ति' के रूप में संदर्भित) के संबंध में ऑयल कंटी ट्यूबलर लिमिटेड (जिसे बाद में 'कंपनी' के रूप में संदर्भित किया गया है) के इंडिपेंडेंट शेयरधारकों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इंडिपेंडेंट शेयर की डिलीवरी) विनियम, 2009 (इसके बाद 'डीलिवरी विनियम' के रूप में संदर्भित) के विनियमन (सी) और अन्य लागू विनियमों के अनुपालन में सार्वजनिक घोषणा जारी की जा रही है। बर्तमान में कंपनी की प्रतिभूतियां बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) पर सूचीबद्ध हैं। निदेशक मंडल अपने कार्यालय में 27 अक्टूबर, 2022 को आयोजित 202 वीं बैठक में प्रशासनिक लाभात में बंधत को बढ़ावा देने के उपायों के एक हिस्से के रूप में, डिलीवरी विनियमों के अनुसार बीएसई लिमिटेड से प्रतिभूतियों की स्पेशल डिलीवरी को मंजूरी दे दी है।

तथापि, कंपनी की प्रतिभूतियां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) पर सूचीबद्ध नहीं रखींगी जो एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है और डिलीवरी विनियमों के अनुसार राष्ट्रपत्यांगी व्यापक कर रहा है।

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 15.11.2022

प्रति ऑयल कंपनी ट्यूबलर लिमिटेड
श्रीधर कामिनेनी, प्रबंधक निदेशक

बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे-411005

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

एक्स1 / सूत्रों / आरएफपी 13 / 2022 - 23

बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, पात्र तथा प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं / बोलीदाताओं से आरएफपी क्र.13/2022-23- बैंक के डिजिटल परिवर्तन के लिए सलाहकार की नियुक्ति के प्रस्ताव के लिए अनुरोध हेतु मुह्रबंद निविदा प्रस्ताव (तकनीकी बोली तथा वाणिज्यिक बोली) आमंत्रित करता है। विस्तृत जानकारी तथा निविदा दस्तावेज बैंक की वेबसाइट <https://www.bankofmaharashtra.in> पर 'टेंडर सेवशन' में दिनांक 16.11.2022 से उपलब्ध रहेगी। आरएफपी दस्तावेज इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा आवश्यक निविदा शुल्क का भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। बैंक बिना कोई कारण बताए आरएफपी प्रक्रिया रद्द या पुनर्निर्धारित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

उप महाप्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी

MUNICIPAL COUNCIL, SILLOD
Sillod, District Auranagabad (Maharashtra) 431112

Outward No.MCS/WS/TNo.05/2022-23/1280 Date : 15/11/2022

Tender Notice 05 Year 2022-23

Chief Officer, Sillod Municipal Council through the process of online E-tendering invites B-1 (percentage rate) bids for Sillod Town under MSJNMA - Construction of Collection System, House Service Connection, Utility shifting, Road Restoration & Express Feeder of Rs.96.15,29,792.00/- (Excluding GST). The time period for completion of work will be 18 months including monsoon. The tender meeting will be on 24/11/2022. And the tender opening date is 13/12/2022 (if possible). The detailed tender document containing pre-qualification criteria & required documentation is available on the website <https://mahatenders.gov.in>

Sd/-
Chief Officer
Municipal Council, Sillod

GANESHA ECOSPHERE LIMITED
(CIN : L51109UP1987PLC009090)

Regd. Office : Raipur (Rania), Kalpi Road, Distt. Kanpur Dehat - 209304 (U.P.)
E-mail : secretarial@ganeshaecosphere.com, Website : www.ganeshaecosphere.com
Tel. No. : 0512-2555505-06, +91 9198708383, Fax No. : 0512-2555293

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2022

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 30.09.2022 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2022 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2021 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	31,294.04	60,552.74	24,789.03
2.	Net Profit for the period before tax	2,658.13	4,503.31	2,038.01
3.	Net Profit for the period after tax ^	1,969.70	3,296.74	1,425.89
4.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,970.46	3,298.26	1,433.90
5.	Equity Share Capital	2,182.94	2,182.94	2,182.94
6.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	-	-	-
7.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)			
	-Basic	9.01*#	15.10*#	6.53*
	-Diluted	9.01*#	15.10*#	6.53*
	*Not annualised			

^ The Group does not have any Exceptional and Extraordinary item to report for the above periods. # The Parent Company has constituted Ganesh Ecospere Employees' Welfare Fund to acquire, hold and allocate/transfer equity shares of the parent company to eligible employees pursuant to the Ganesh Ecospere Employees' Stock Option Scheme, 2021. As on September 30, 2022, the Trust has 39,194 equity shares of the Company, which have been reduced while computing basic and diluted earnings per share.

Notes:
1. Additional information on standalone financial results is as follows:

Particulars	Quarter ended 30.09.2022 (Unaudited)	Half Year ended 30.09.2022 (Unaudited)	Quarter ended 30.09.2021 (Unaudited)
Revenue from Operations	31,413.90	60,708.86	24,811.58
Profit before Tax	2,686.74	4,734.86	2,404.35
Profit after Tax	1,995.87	3,524.98	1,792.23

2. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website www.ganeshaecosphere.com.

For GANESHA ECOSPHERE LIMITED
Sd/-
(Shyam Sunder Sharma)
Chairman

Place: Kanpur
Date: 14.11.2022

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड
TATA POWER-DDL

राजि. ऑफिस : एनडीएल हाउस, हुडसन लाइन्स, किंग्सकैंप, दिल्ली-110009
फोन : 66112222, फैक्स : 27468042, ईमेल : TPDDL@tatapower-deli.com
CIN No. : U40109DL2001PLC111526, वेबसाइट : www.tatapower-deli.com

निविदा सूचना आमंत्रित Nov 16, 2022

टाटा पावर-डीडीएल निम्न मदों के लिए निविदाएं आमंत्रित करता है:

निविदा पृच्छाच सं. कार्य का विवरण	अनुमानित लागत/बेहोर जमा राशि (₹)	बोली दरतावेज की तिथि	बोली जमा करने की शर्तें/निविदा खोलने की शर्तें
TPDDL/ENGG/ENQ/200001479/22-23 RC-Repair and Reconditioning of DTs	5.79 Crs/ 5,35,000	17.11.2022	08.12.2022:1600 Hrs 08.12.2022:1630 Hrs

सुक्षिप्त/निविदा तिथि विस्तार

निविदा पृच्छाच सं. कार्य का विवरण	पूर्व प्रकाशित दिनांक	संशोधित निविदा तिथि/बोली जमा करने की तिथि/बोली खोलने की तिथि
TPDDL/ENGG/ENQ/200001455/22-23 Two Year/RC/For 11kV & LT associated works in PAN Tata Power-DDL, Delhi	18.10.2022	16.11.2022 at 1600 Hrs/ 16.11.2022 at 1630 Hrs

सम्पूर्ण निविदा एवं सुक्षिप्त दस्तावेज हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध
website www.tatapower-deli.com → Vendor Zone → Tender / Corrigendum Documents
Contracts - 011-66112222

TATA POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED
A Tata Power and Delhi Government Joint Venture

Regd. Office : NDPL House, Hudson Lines, Kingsway Camp, Delhi 110 009
Tel : 66112222, Fax : 27468042, Email : TPDDL@tatapower-deli.com
CIN No. : U40109DL2001PLC111526, Website : www.tatapower-deli.com

NOTICE INVITING TENDERS Nov 16, 2022

TATA Power-DDL invites tenders as per following details:

As per the guidelines issued by Ministry Of Power (MoP), Government of India, Tata Power Delhi Distribution Limited (Tata Power-DDL) is inviting Bids for procurement of 100 MW Hydro Power on Medium Term basis with a greenlease option of additional 100 MW through competitive bidding process to be conducted on DEEP Portal. The schedule of bid process is as follows:-

S.No.	Event	Date	Time
1	Availability of Bid document on DEEP Portal	16-11-2022	18:00 Hrs
2	Last date and time for receiving queries on RFQ and RFP	25-11-2022	18:00 Hrs
3	Pre-bid meeting—Online/Offline as required.	01-12-2022	15:00 Hrs
4	Last date and time of submission of Application and Bids (including Section A and Section B) – Bid Due Date	16-12-2022	14:00 Hrs
5	Opening of Application	16-12-2022	15:00 Hrs

For more details of Notice for Invitation of Tender (NIT), please visit www.msstecomm.com and Tata Power website www.tatapower-deli.com.
HO :- Power Management and BESS
Tata Power-Delhi Distribution Limited, Technology Centre, Pitampura, Delhi-110034

Care Edge
RATINGS

Registered Office: 4th Floor, Godrej Coliseum, Somaiya Hospital Road, Off Eastern Express Highway, Sion (East), Mumbai - 400 022, Maharashtra, India. Contact Person: Ms. Nehal Shah, Company Secretary & Compliance Officer. Tel. No.: +91 22 67543456 E-mail: investor.relations@careedge.in, Corporate Identity Number: L67190M11993PLC071691

CARE RATINGS LIMITED

PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/ BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF CARE RATINGS LIMITED

OFFER OPENING ADVERTISEMENT FOR THE BUY-BACK OF EQUITY SHARES THROUGH TENDER OFFER UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUYBACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED, ("BUY-BACK REGULATIONS") FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF CARE RATINGS LIMITED

This Offer Opening Advertisement is to be read together with:

- The public announcement, made in accordance with the Buy-back Regulations, dated September 3, 2022, published in all editions of Business Standard, an English and Hindi national daily newspaper and Navshakti, a Marathi language daily newspaper (Marathi being the regional language of Maharashtra, where our Registered Office is located), each with wide circulation, on September 5, 2022; and
- The Letter of Offer dated November 5, 2022 in connection with the Buy-back ("Letter of Offer")

In terms of Regulation 8 (j) of the Buy-back Regulations, the Draft Letter of Offer was submitted to SEBI on September 12, 2022. SEBI, vide its letter dated November 3, 2022 ("SEBI Observation Letter"), issued its comments on the Draft Letter of Offer in terms of Regulation 8 (ii) of the Buy-back Regulations. These comments have been suitably incorporated in the Letter of Offer.

The dispatch of the Letter of Offer to the Eligible Shareholders of the Company holding Equity Shares on the Record Date i.e. September 14, 2022 has been completed by November 11, 2022 through electronic mode to the shareholders whose e-mail ids are available with the Company and through speed post/registered post at the address registered in India for all the remaining shareholders.

The Letter of Offer and the Tender Forms are available on the website of the Company <https://www.careratings.com/Buyback-2022.aspx>; SEBI (www.sebi.gov.in), the Registrar to the Buy-back <https://kosmic.kfintech.com/karisma/buybackoffer/v2.aspx> and the Stock Exchanges i.e., NSE (www.nseindia.com) and BSE (www.bseindia.com). In case of non-receipt of the Letter of Offer, the Eligible Shareholders, if they so desire, may download the Letter of Offer or the Tender Forms from the websites indicated above.

The schedule of activities for the Buyback is as follows:

Activity	Day and Date
Date of Board meeting approving the proposal of the Buy-back	Wednesday, July 20, 2022
Date of declaration of results of postal ballot for special resolution by the Equity Shareholders of the Company, approving the Buy-back	Friday, September 2, 2022
Date of publication of the Public Announcement for the Buy-back	Monday, September 5, 2022
Record Date for determining the Buy-back Entitlement and the names of Eligible Shareholders	Wednesday, September 14, 2022
Date of opening of the Buy-back	Friday, November 18, 2022
Date of closing of the Buy-back	Thursday, December 1, 2022
Last date of receipt of completed Tender Forms and other specified documents including physical share certificates (if and as applicable) by the Registrar	Saturday, December 3, 2022
Last date of verification by the Registrar	Monday, December 5, 2022
Last date of intimation regarding acceptance or non-acceptance of tendered Equity Shares to the Stock Exchanges by the Registrar	Friday, December 9, 2022
Last date of settlement of bids on the Stock Exchanges	Monday, December 12, 2022
Last date of dispatch of share certificate(s) by the Registrar/return of unaccepted demat Equity Shares by Stock Exchange to Shareholder Broker/Eligible Shareholders	Monday, December 12, 2022
Last date of extinguishment of Equity Shares	Monday, December 19, 2022

Note: In case the last date is mentioned for certain activities, such activities may be completed on or before such last date.

It may please be noted that the Buy-back shall be implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by the SEBI Circulars and following the procedure prescribed in the Companies Act, 2013 read with the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 and the Buy-back Regulations and as may be determined by the Board and on such terms and conditions as may be permitted by law from time to time. In this regard, the Company has requested BSE and NSE to provide the Acquisition Window. For the purpose of this Buy-back, BSE is the Designated Stock Exchange. All Eligible Shareholders may place orders in the Acquisition Window, through their respective stockbrokers ("Shareholder Broker") during normal trading hours of the secondary market.

For details of the procedure for tender and settlement, please refer to the "Procedure for Tendering Shares and Settlement" on page 39 of the Letter of Offer.

The non-receipt of the Letter of Offer by, or accidental omission to dispatch the Letter of Offer to any person who is eligible to receive the same to participate in the buy-back, shall not invalidate the Buy-back Offer in any way. In case of non-receipt of the Letter of Offer, Eligible Shareholders may participate in the offer by applying on the Tender Form downloaded from the Company's website i.e. <https://www.careratings.com/Buyback-2022.aspx> or Registrar's portal (direct web link of the RTA) at <https://kosmic.kfintech.com/karisma/buybackoffer/v2.aspx> or obtain a duplicate copy of the same by writing to the Registrar to the Buy-back or by providing their application in plain paper in writing signed by such shareholder (in case jointly held then signed by all shareholders), stating name, address, number of shares held, Folio No., Client ID number, DP name, DP ID number, number of Equity Shares tendered and other relevant documents. Eligible Shareholder(s) have to ensure that their bid is entered in the Acquisition Window prior to the closure of the Offer. Please note that the Company shall accept Equity Shares from the Eligible Shareholders on the basis of their holding and Buy-back Entitlement. Eligible Shareholder(s) who intend to participate in the Buy-back using the 'plain-paper' option as mentioned in this paragraph are advised to confirm their Buy-back Entitlement from the Registrar to the Buy-back, before participating in the Buy-back.

DAM CAPITAL

DAM Capital Advisors Limited
One BKC, Tower C, 15th Floor, Unit No.1511, Bandra Kuria Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051, Maharashtra, India.
Tel: +91 22 4202 2500
Contact Person: Chandresh Sharma/ Nidhi Gupta
E-mail: care.buyback@damcapital.in
Website: www.damcapital.in
SEBI Registration Number: MB/IN/M000011336
Validity period: Permanent
CIN: U99999MH1993PLC071865

eki ईकेआई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड
CIN: L74200MP2011PLC025904 • BSE Script Code - EKI I 543284

पंजीकृत पता: प्लॉट 48, योजना 78 पार्क-2, विजय नगर, इंदौर-452 010 (म.प्र.) भारत
कॉर्पोरेट पता: 903, बी-1, सर्वो मॉडल, एनआरके बिजनेस पार्क, स्कीय 54, चौक 4, इंदौर-452 010 (म.प्र.) भारत, फोन: (+91) 731 42 89 086
ई-मेल: business@enkingint.org, वेबसाइट: www.enkingint.org

असाधारण आम बैठक (ईजीएम) के शेयरधारकों को सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की वित्त वर्ष 2022-23 की प्रथम असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बुधवार, 07 दिसंबर, 2022 को सुबह 11:30 बजे (भारतीय समयानुसार) दो तरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अथ ऑडियो विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जायेगी, जिसमें ईजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों को नियमित किया जाएगा। सभी लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, दिनांक 5 मई, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 21/2021, दिनांक 14 दिसंबर, 2021 और सामान्य परिपत्र संख्या 2/2022, दिनांक 05 मई, 2022 और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एम्सीए) द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्र और परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, दिनांक 12 मई, 2020 और परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62, दिनांक 13 मई, 2022 भारतीय प्रतिभूति और निगम बोर्ड ("बीबी") द्वारा जारी किया गया (सामूहिक रूप से "प्रशासनिक परिपत्र" के रूप में संदर्भित), और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटिकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("लॉस्टिंग रेगुलेशन"), कंपनी की ईजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एक सामान्य स्थान पर कंपनी के सदस्यों की भीतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी।

ईजीएम की सूचना जिसमें ई-वोटिंग और वीसी के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने की प्रक्रिया और तरीके शामिल हैं, को नवंबर 15, 2022 को ई-मेल के माध्यम से उन सभी सदस्यों को भेजा गया है, जिनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपेटर्स / कंपनी के आर्टाई के साथ पंजीकृत है। ईजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.enkingint.org, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्राधान्य के अनुपालन में, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20/2020 के साथ, समय-समय पर संशोधित रूप में और लॉस्टिंग रेगुलेशन के विनियमन 44 के साथ, कंपनी सदस्यों को ईजीएम की सूचना में निर्दिष्ट व्यवसायों पर ईजीएम से पहले और ईजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की गयी है। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग, वीसी के माध्यम से ईजीएम में भागीदारी और ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रदान करने के लिए सीडीएसएल की सेवाएं ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग दिनांक 04, 2022 को सुबह 09:00 बजे शुरू होगी और दिनांक 06, 2022 को सायं 5:00 बजे समाप्त होगी। समय समाप्ति के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाला सदस्य ईजीएम में शामिल हो सकता है लेकिन उसे ईजीएम के दौरान फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल वे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे वीसी के माध्यम से ईजीएम में भाग लेकर ईजीएम के दौरान अपना वोट डाल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, जो नॉटिस के प्रेषण के बाद सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ दिनांक: नवंबर 30, 2022 को शरीर रखता है, helpdesk.evoting@cdsindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉजिंग विवरण प्राप्त कर सकता है।

ई-वोटिंग या वीसी के माध्यम से बैक में भाग लेने के संबंध में प्रश्न या समस्या के मामले में, कृपया टोल फ्री नंबर: 022-23058542/43 पर संपर्क करें या helpdesk.evoting@cdsindia.com पर अनुरोध भेजें या सीडीएसएल के नामित अधिकारी श्री राकेश तलवी से ईमेल आईडी: helpdesk.evoting@cdsindia.com पर संपर्क करें या सुश्री इतिशा साहू, कंपनी सचिव को cs@enkingint.org पर ईमेल कर सकते हैं।

कृते : ईकेआई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड
हरनाथ
नवीन शर्मा
निदेशक

CARE RATINGS LIMITED

MANAGER TO THE BUY-BACK

REGISTRAR TO THE BUY-BACK

DAM CAPITAL

KFIN TECHNOLOGIES LIMITED
(formerly known as KFin Technologies Private Limited)
Selenium Tower-B, Plot 31-32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad-500 032
Tel: +91 40 6716 2222, Toll Free No